

अगला स्थानीय सरकारी चुनाव शनिवार 12 अक्टूबर 2019 को पामर्स्टन नॉर्थ में होगा। मतदाता मेयर और 15 सिटी काउंसलरों (नगर पार्षदों) का चुनाव करेंगे।

काउंसिल क्या करती है?

सिटी काउंसिल पामर्स्टन नॉर्थ में लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर प्रभाव डालने वाले कई निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक करती है। परिषद सड़क, पानी की व्यवस्था, कूड़ा संग्रहण, पुस्तकालय, पार्क, सामुदायिक केंद्र, कुत्ते का पंजीकरण, सामुदायिक और आर्थिक विकास और शहर की योजना सहित स्थानीय सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला का नियंत्रण करती है।

कैसे चुना जा सकता है?

चुनाव मतदाताओं के लिए एक ऐसी परिषद को चुनने का मौका होता है, जो हमारे समुदाय में मौजूद विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करेगी।

चुनाव में खड़े होने के लिए आपका निम्नलिखित होना जरूरी है:

- न्यूजीलैंड का नागरिक होना **और**
- एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होना (इसका मतलब यह भी है कि आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए) **और**
- पामर्स्टन नॉर्थ के दो निर्वाचकों द्वारा नामांकित किया जाना।

नामांकन **शुक्रवार 16 अगस्त** दोपहर 12 बजे बंद होंगे।

कौन वोट दे सकता है?

केवल नामांकित लोग ही मतदान कर सकते हैं। आप नामांकन और मतदान करने के योग्य हैं अगर:

- आपकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है **और**
- आप न्यूजीलैंड के नागरिक या स्थायी निवासी या निवासी वीजा धारक हैं **और**
- आप न्यूजीलैंड में किसी समय के दौरान एक वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार रह चुके हैं।

यदि आप कुक आइलैंड माओरी, नुइयन, टोकेलाउन या ऑस्ट्रेलियन हैं तो आप एक बार न्यूजीलैंड में 12 महीने तक लगातार रह चुकने के बाद आप नामांकन कर सकते हैं; नामांकन करने और वोट देने के लिए आपके पास निवासी वीजा होने की जरूरत नहीं है।

नामांकन करने के लिए, vote.nz जाएं या 0800 36 76 56 नम्बर पर फोन करें।

मतदान कैसे करें:

जिन लोगों का नामांकन हो चुका है, उन्हें सितम्बर में मेल द्वारा एक वोटिंग पैक भेजा जाएगा। वोटिंग पैक में वोटिंग फॉर्म को पूरा करने के निर्देश शामिल होंगे।

न्यूजीलैंड में मतदान करना बहुत सुरक्षित है, और आपका वोट हमेशा गोपनीय रहेगा। जब तक कि आप ऐसा नहीं चाहते, आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि आपने कैसे वोट दिया है।

मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण तिथियां

शुक्रवार 20 सितम्बर	वोटर पैक डाक से भेज दिए गए, और मतदान खुल गया है
शनिवार 12 अक्टूबर	दोपहर 12 बजे मतदान बंद
गुरुवार (बृहस्पतिवार) 17 अक्टूबर	आधिकारिक परिणाम घोषित



मदद या अधिक जानकारी के लिए

वोट डालने के लिए नामांकन के लिए: 0800 36 76 56 नम्बर पर फोन करें या vote.nz वेबसाइट पर जाएं

मतदान करने या चुनाव सम्बन्धी अन्य प्रश्नों में मदद के लिए: 0800 300 126 नम्बर पर फोन करें

आप सहायता के लिए सिटी काउंसिल के रिसेप्शन या मानावतु मल्टीकल्चरल सेंटर (बहुसांस्कृतिक केंद्र) पर भी जा सकते हैं।